



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 24.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्ना को अवैध शस्त्र व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्ना पुत्र इब्राहिम नि० मोहम्मदपुर थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु०अ०सं० 195/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 185/21 धारा 332/353/323/504/506/147 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण 1. अर्जुन 2. नरेश पुत्रगण बेचेलाल नि0 असौवा थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **209 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **10 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना भीरा	100 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिंगाही	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना गोला	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सम्पूर्णनगर	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मैलानी	14 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मोहम्मदी	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	209 लीटर	10 अभियुक्त गिरफ्तार